



Boy  
॥  
Girl

Model: Web-MatchAnalysis

SrNo: 101-101-102-9911 / 887

## कुँडली मिलान का महत्व

वैवाहिक जीवन में अनुकूलता हेतु जन्मकुण्डली मिलान किया जाता है।

इसमें सर्वप्रथम अष्टकूट मिलान किया जाता है। जातक की राशि व नक्षत्र के अनुसार उसका वर्ण, वश्य, तारा, योनि, राशेश, गण, भकूट एवं नाड़ी का ज्ञान करके वर-वधू के जीवन की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का निर्णय किया जाता है। वर्ण विचार से कर्म, वश्य विचार से स्वभाव, तारा विचार से भाग्य, योनि विचार व ग्रह मैत्री विचार से पारस्परिक संबंध, गण से सामाजिकता, भकूट से जीवन में तालमेल एवं नाड़ी विचार से स्वास्थ्य व सतांन संबंधी फल का विचार किया जाता है। इन सभी गुणों को क्रमशः 1 से 8 तक अंक दिये जाते हैं। इस प्रकार अष्टकूट विचार में कुल 36 गुणों का विचार किया जाता है। जिसमें कम से कम 18 गुणों का होना आवश्यक है। इससे कम गुण वाले विवाह ज्योतिषीय विधान के अनुसार अव्यवहारिक रहते हैं।

अष्टकूट मिलान के साथ मांगलिक दोष का विचार भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि मंगल लग्न कुँडली में 1,4,7,8 एवं 12 वें भाव में स्थित हो तो मंगली दोष होता है। मंगली दोष निवारण के लिए आवश्यक है कि वर-वधू दोनों मंगली न हों या दोनों मंगली हों। शास्त्रों में इनके अलावा भी दोष निवारण के सूत्र दिए गए हैं। इस दोष के निवारण से किसी प्रकार के अमंगल की संभावनाएं कम हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुख व शांतिपूर्ण गुजरता है।



पुलिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
05/03/1987 :	जन्म तिथि	: 02/06/1989
गुरुवार :	दिन	: शुक्रवार
घंटे 07:15:00 :	जन्म समय	: 10:50:00 घंटे
घटी 02:26:11 :	जन्म समय(घटी)	: 13:40:33 घटी
India :	देश	: India
Jeypore :	स्थान	: Delhi
18:52:00 उत्तर :	अक्षांश	: 28:39:00 उत्तर
82:38:00 पूर्व :	रेखांश	: 77:13:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे 00:00:32 :	स्थानिक संस्कार	: -00:21:08 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
06:16:31 :	सूर्योदय	: 05:23:36
18:05:58 :	सूर्यस्त	: 19:14:48
23:40:37 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:42:41

मीन :	लग्न	: कर्क
गुरु :	लग्न लग्नाधिपति	: चन्द्र
मेष :	राशि	: मेष
मंगल :	राशि-खामी	: मंगल
भरणी :	नक्षत्र	: भरणी
शुक्र :	नक्षत्र स्वामी	: शुक्र
3 :	चरण	: 4
ऐन्ड्र :	योग	: अतिगण्ड
कौलव :	करण	: विष्टि
ले-लेखपाल :	जन्म नामाक्षर	: लो-लोचन
मीन :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: मिथुन
क्षत्रिय :	वर्ण	: क्षत्रिय
चतुष्पाद :	वश्य	: चतुष्पाद
गज :	योनि	: गज
मनुष्य :	गण	: मनुष्य
मध्य :	नाड़ी	: मध्य
मृग :	वर्ग	: मृग



# ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी		अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
शुक्र 5वर्ष 4मा 13दि	याहु	07:48:46	मीन	लग्न	कर्क	29:31:43	शुक्र 0वर्ष 10मा 7दि
18/07/2015		20:16:24	कुंभ	सूर्य	वृष्ट	17:56:43	याहु
17/07/2033		23:05:13	मेष	चंद्र	मेष	26:05:50	10/04/2013
राहु	30/03/2018	14:53:27	मेष	मंगल	मिथु	27:21:50	10/04/2031
गुरु	23/08/2020	09:35:27	कुंभ व	बुध व	वृष्ट	04:47:41	राहु 22/12/2015
शनि	30/06/2023	06:52:00	मीन	गुरु	वृष्ट	23:08:25	गुरु 16/05/2018
बुध	16/01/2026	08:21:49	मक	शुक्र	मिथु	03:13:49	शनि 22/03/2021
केतु	03/02/2027	26:55:11	वृश्चिं	शनि व	धनु	18:58:48	बुध 10/10/2023
शुक्र	03/02/2030	18:06:07	मीन	राहु व	कुंभ	05:28:47	केतु 27/10/2024
सूर्य	29/12/2030	18:06:07	कन्या	केतु व	सिंह	05:28:47	शुक्र 28/10/2027
चन्द्र	29/06/2032	02:43:48	धनु	हर्ष व	धनु	10:31:21	सूर्य 21/09/2028
मंगल	17/07/2033	13:58:12	धनु	नेप व	धनु	18:04:19	चन्द्र 23/03/2030
		16:09:53	तुला व	प्लूटो व	तुला	19:19:00	मंगल 10/04/2031

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
शुक्र 0वर्ष 10मा 7दि	याहु	29:31:43	कर्क	वृष्ट	17:56:43	शुक्र 5वर्ष 4मा 13दि
10/04/2013		26:05:50	मेष	मिथु	27:21:50	18/07/2015
10/04/2031		27:21:50	मिथु	वृष्ट	04:47:41	10/04/2031
राहु	22/12/2015	04:47:41	वृष्ट	बुध व	09:35:27	राहु 30/03/2018
गुरु	16/05/2018	23:08:25	वृष्ट	गुरु	06:52:00	गुरु 23/08/2020
शनि	22/03/2021	03:13:49	मिथु	शुक्र	08:21:49	शनि 30/06/2023
बुध	10/10/2023	18:58:48	मिथु	शनि व	26:55:11	बुध 16/01/2026
केतु	27/10/2024	05:28:47	वृष्ट	राहु व	18:06:07	केतु 03/02/2027
शुक्र	28/10/2027	05:28:47	वृष्ट	केतु व	18:06:07	शुक्र 03/02/2030
सूर्य	21/09/2028	10:31:21	वृष्ट	हर्ष व	02:43:48	सूर्य 29/12/2030
चन्द्र	23/03/2030	18:04:19	वृष्ट	धनु	13:58:12	चन्द्र 29/06/2032
मंगल	10/04/2031	19:19:00	वृष्ट	धनु	16:09:53	मंगल 17/07/2033


व - वक्त्री स - स्थिर

अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त


राहु : स्पष्ट

23:40:37 चित्रपक्षीय अयनांश 23:42:41

लग्न-चलित



लग्न-चलित



## चलित अंश

भाव मध्य	भाव संधि	भाव	भाव संधि	भाव मध्य
मीन	07:48:46 कुंभ	22:44:33	1 कर्क	14:02:31 कर्क
मेष	07:40:20 मीन	22:44:33	2 सिंह	14:02:31 सिंह
वृष	07:31:54 मेष	22:36:07	3 कन्या	13:04:08 कन्या
मिथु	07:23:28 वृष	22:27:41	4 तुला	12:05:44 तुला
कर्क	07:31:54 मिथु	22:27:41	5 वृश्चिं	12:05:44 वृश्चिं
सिंह	07:40:20 कर्क	22:36:07	6 धनु	13:04:08 धनु
कन्या	07:48:46 सिंह	22:44:33	7 मक	14:02:31 मक
तुला	07:40:20 कन्या	22:44:33	8 कुंभ	14:02:31 कुंभ
वृश्चिं	07:31:54 तुला	22:36:07	9 मीन	13:04:08 मीन
धनु	07:23:28 वृश्चिं	22:27:41	10 मेष	12:05:44 मेष
मक	07:31:54 धनु	22:27:41	11 वृष	12:05:44 वृष
कुंभ	07:40:20 मक	22:36:07	12 मिथु	13:04:08 मिथु



### तारा चक्र






पूर्वाशाढ़ा	पू०फाल्गुनी	भरणी
उत्तराशाढ़ा	उ०फाल्गुनी	कृतिका
श्रवण	हस्त	रोहिणी
धनिष्ठा	चित्रा	मृगशिरा
शतभिषा	स्वाति	आद्रा
पू०भाद्रपद	विशाखा	पुनर्वसु
उ०भाद्रपद	अनुराधा	पुष्य
रेवती	ज्येष्ठा	आश्लेषा
अश्विनी	मूल	मघा

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
------	--------	-------	-------	-----------	------	----	-------	----------

भरणी	पू०फाल्गुनी	पूर्वाशाढ़ा
कृतिका	उ०फाल्गुनी	उत्तराशाढ़ा
रोहिणी	हस्त	श्रवण
मृगशिरा	चित्रा	धनिष्ठा
आद्रा	स्वाति	शतभिषा
पुनर्वसु	विशाखा	पू०भाद्रपद
पुष्य	अनुराधा	उ०भाद्रपद
आश्लेषा	ज्येष्ठा	रेवती
मघा	मूल	अश्विनी


### चलित कुण्डली






## षोडशवर्ग चक्र


वर्गीय कुंडलियां लग्न कुंडली का विस्तार होती हैं। प्रत्येक कुंडली का एक विशेष लक्ष्य होता है, जैसा कि निम्न कुंडलियों के साथ वर्णन किया गया है। विस्तृत रूप से यह जानने के लिए कि ये कुंडलियां कौन से विषय का प्रतिनिधित्व करती हैं, इनका अध्ययन मूल लग्न कुंडली के साथ किया जाना चाहिए। बहरहाल, ये कुंडलियां विशेष सावधानी से देखी जानी चाहिए, क्योंकि यहां ग्रहों की दृष्टि नहीं होती। सामान्यतः ग्रह का आचरण उस राशि या भाव तक सीमित रहता है जिनमें वे इन वर्गीय कुंडलियों में स्थित हैं।




# षोडशवर्ग चक्र



# षोडशवर्ग चक्र




# षोडशवर्ग चक्र




# अष्टकवर्ग सारिणी

## सर्वाष्टकवर्ग



## सर्वाष्टकवर्ग



	मे	वृ	भि	क	सि
शनि	1	2	4	2	4
गुरु	5	6	4	3	3
मंगल	3	3	5	4	4
सूर्य	2	4	5	5	4
शुक्र	4	3	5	6	3
बुध	4	4	4	5	4
चंद्र	6	4	4	2	4
बिन्दु	25	26	31	27	26
रेखा	31	30	25	29	30

## Boy

	कं	तु	वृशि	घ	म	कुं	मी	कुल
शनि	5	1	3	4	5	4	4	39
गुरु	4	7	5	5	4	5	5	56
मंगल	2	1	4	5	3	4	1	39
सूर्य	3	3	5	6	5	5	1	48
शुक्र	4	4	4	5	5	5	5	52
बुध	3	5	5	5	7	6	2	54
चंद्र	7	3	3	5	5	3	3	49
बिन्दु	28	24	29	35	34	31	21	337
रेखा	28	32	27	21	22	25	35	335

## Girl

	मे	वृ	भि	क	सि	कं	तु	वृशि	घ	म	कुं	मी	कुल
शनि	6	5	2	1	2	3	5	3	3	1	4	4	39
गुरु	4	6	4	5	5	2	4	5	5	4	6	6	56
मंगल	4	2	3	5	1	6	4	1	3	2	3	5	39
सूर्य	3	3	5	3	2	6	4	2	5	6	4	5	48
शुक्र	5	3	2	5	5	6	4	3	3	3	6	7	52
बुध	6	3	3	6	3	6	6	1	4	6	5	5	54
चंद्र	5	4	2	3	4	4	5	4	6	1	6	5	49
बिन्दु	33	26	21	28	22	33	32	19	29	23	34	37	337
रेखा	23	30	35	28	34	23	24	37	27	33	22	19	335

## शोध्य पिंड - Boy

	सूर्य	चंद्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
राशि पिंड	162	57	144	87	92	46	119
ग्रह पिंड	54	48	52	63	66	37	76
शोध्य पिंड	216	105	196	150	158	83	195

## शोध्य पिंड - Girl

	सूर्य	चंद्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
राशि पिंड	71	114	106	149	59	163	133
ग्रह पिंड	35	75	25	20	85	10	105
शोध्य पिंड	106	189	131	169	144	173	238

## विंशोत्तरी दशा

### शुक्र 5 वर्ष 4 मास 13 दिन

शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष
05/03/1987	17/07/1992	18/07/1998
17/07/1992	18/07/1998	17/07/2008
00/00/0000	सूर्य 04/11/1992	चंद्र 18/05/1999
00/00/0000	चंद्र 05/05/1993	मंगल 17/12/1999
00/00/0000	मंगल 10/09/1993	राहु 17/06/2001
00/00/0000	राहु 05/08/1994	गुरु 17/10/2002
00/00/0000	गुरु 24/05/1995	शनि 17/05/2004
05/03/1987	शनि 05/05/1996	बुध 17/10/2005
शनि 17/07/1988	बुध 11/03/1997	केतु 18/05/2006
बुध 18/05/1991	केतु 17/07/1997	शुक्र 16/01/2008
केतु 17/07/1992	शुक्र 18/07/1998	सूर्य 17/07/2008

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष
17/07/2008	18/07/2015	17/07/2033
18/07/2015	17/07/2033	17/07/2049
मंगल 13/12/2008	राहु 30/03/2018	गुरु 04/09/2035
राहु 01/01/2010	गुरु 23/08/2020	शनि 18/03/2038
गुरु 08/12/2010	शनि 30/06/2023	बुध 23/06/2040
शनि 16/01/2012	बुध 16/01/2026	केतु 30/05/2041
बुध 13/01/2013	केतु 03/02/2027	शुक्र 29/01/2044
केतु 11/06/2013	शुक्र 03/02/2030	सूर्य 16/11/2044
शुक्र 11/08/2014	सूर्य 29/12/2030	चंद्र 18/03/2046
सूर्य 17/12/2014	चंद्र 29/06/2032	मंगल 22/02/2047
चंद्र 18/07/2015	मंगल 17/07/2033	राहु 17/07/2049

शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
17/07/2049	17/07/2068	17/07/2085
17/07/2068	17/07/2085	17/07/2092
शनि 20/07/2052	बुध 14/12/2070	केतु 13/12/2085
बुध 30/03/2055	केतु 11/12/2071	शुक्र 13/02/2087
केतु 08/05/2056	शुक्र 11/10/2074	सूर्य 20/06/2087
शुक्र 09/07/2059	सूर्य 17/08/2075	चंद्र 19/01/2088
सूर्य 20/06/2060	चंद्र 16/01/2077	मंगल 17/06/2088
चंद्र 19/01/2062	मंगल 13/01/2078	राहु 05/07/2089
मंगल 28/02/2063	राहु 01/08/2080	गुरु 11/06/2090
राहु 04/01/2066	गुरु 07/11/2082	शनि 21/07/2091
गुरु 17/07/2068	शनि 17/07/2085	बुध 17/07/2092

### शुक्र 0 वर्ष 10 मास 7 दिन

शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष
02/06/1989	10/04/1990	09/04/1996
10/04/1990	09/04/1996	10/04/2006
00/00/0000	सूर्य 29/07/1990	चंद्र 08/02/1997
00/00/0000	चंद्र 27/01/1991	मंगल 09/09/1997
00/00/0000	मंगल 04/06/1991	राहु 11/03/1999
00/00/0000	राहु 28/04/1992	गुरु 10/07/2000
00/00/0000	गुरु 14/02/1993	शनि 08/02/2002
00/00/0000	शनि 27/01/1994	बुध 11/07/2003
00/00/0000	बुध 03/12/1994	केतु 09/02/2004
02/06/1989	केतु 10/04/1995	शुक्र 09/10/2005
केतु 10/04/1990	शुक्र 09/04/1996	सूर्य 10/04/2006

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष
10/04/2006	10/04/2013	10/04/2031
10/04/2013	10/04/2031	10/04/2047
मंगल 06/09/2006	राहु 22/12/2015	गुरु 28/05/2033
राहु 25/09/2007	गुरु 16/05/2018	शनि 10/12/2035
गुरु 31/08/2008	शनि 22/03/2021	बुध 17/03/2038
शनि 09/10/2009	बुध 10/10/2023	केतु 21/02/2039
बुध 07/10/2010	केतु 27/10/2024	शुक्र 22/10/2041
केतु 05/03/2011	शुक्र 28/10/2027	सूर्य 10/08/2042
शुक्र 04/05/2012	सूर्य 21/09/2028	चंद्र 10/12/2043
सूर्य 09/09/2012	चंद्र 23/03/2030	मंगल 15/11/2044
चंद्र 10/04/2013	मंगल 10/04/2031	राहु 10/04/2047

शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
10/04/2047	10/04/2066	10/04/2083
10/04/2066	10/04/2083	10/04/2090
शनि 13/04/2050	बुध 06/09/2068	केतु 06/09/2083
बुध 21/12/2052	केतु 03/09/2069	शुक्र 05/11/2084
केतु 30/01/2054	शुक्र 04/07/2072	सूर्य 13/03/2085
शुक्र 01/04/2057	सूर्य 10/05/2073	चंद्र 12/10/2085
सूर्य 14/03/2058	चंद्र 10/10/2074	मंगल 11/03/2086
चंद्र 13/10/2059	मंगल 07/10/2075	राहु 29/03/2087
मंगल 21/11/2060	राहु 25/04/2078	गुरु 04/03/2088
राहु 28/09/2063	गुरु 31/07/2080	शनि 13/04/2089
गुरु 10/04/2066	शनि 10/04/2083	बुध 10/04/2090

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

राहु - गुरु	राहु - शनि	राहु - बुध	राहु - शनि	राहु - बुध	राहु - केतु
30/03/2018	23/08/2020	30/06/2023	16/05/2018	22/03/2021	10/10/2023
23/08/2020	30/06/2023	16/01/2026	22/03/2021	10/10/2023	27/10/2024
गुरु 25/07/2018 शनि 03/02/2021 बुध 08/11/2023	शनि 28/10/2018 बुध 01/08/2021 केतु 01/11/2023	बुध 25/03/2019 केतु 25/09/2021 शुक्र 04/01/2024	शनि 28/10/2018 बुध 01/08/2021 केतु 01/11/2023	बुध 25/03/2019 केतु 25/09/2021 शुक्र 04/01/2024	केतु 01/11/2023
शनि 11/12/2018 बुध 01/07/2021 केतु 02/01/2024	बुध 25/05/2019 शुक्र 27/02/2022 सूर्य 23/01/2024	केतु 25/05/2019 शुक्र 27/02/2022 सूर्य 23/01/2024	शनि 11/12/2018 बुध 01/07/2021 केतु 02/01/2024	शुक्र 14/11/2019 सूर्य 15/04/2022 चंद्र 24/02/2024	शुक्र 04/01/2024
बुध 14/04/2019 केतु 31/08/2021 शुक्र 05/06/2024	शुक्र 05/01/2020 चंद्र 01/07/2022 मंगल 18/03/2024	शुक्र 05/01/2020 चंद्र 01/07/2022 मंगल 18/03/2024	बुध 14/04/2019 केतु 31/08/2021 शुक्र 05/06/2024	सूर्य 14/11/2019 सूर्य 15/04/2022 चंद्र 24/02/2024	सूर्य 23/01/2024
केतु 04/06/2019 शुक्र 20/02/2022 सूर्य 22/07/2024	सूर्य 05/01/2020 चंद्र 01/07/2022 मंगल 18/03/2024	सूर्य 05/01/2020 चंद्र 01/07/2022 मंगल 18/03/2024	केतु 04/06/2019 शुक्र 20/02/2022 सूर्य 22/07/2024	चंद्र 24/02/2024	चंद्र 24/02/2024
शुक्र 28/10/2019 सूर्य 13/04/2022 चंद्र 07/10/2024	चंद्र 01/04/2020 मंगल 24/08/2022 राहु 14/05/2024	चंद्र 01/04/2020 मंगल 24/08/2022 राहु 14/05/2024	शुक्र 28/10/2019 सूर्य 13/04/2022 चंद्र 07/10/2024	मंगल 01/12/2024	मंगल 01/12/2024
सूर्य 11/12/2019 चंद्र 09/07/2022 मंगल 01/12/2024	मंगल 01/06/2020 राहु 11/01/2023 गुरु 04/07/2024	मंगल 01/06/2020 राहु 11/01/2023 गुरु 04/07/2024	सूर्य 11/12/2019 चंद्र 09/07/2022 मंगल 01/12/2024	राहु 14/05/2024	राहु 14/05/2024
चंद्र 22/02/2020 मंगल 08/09/2022 राहु 19/04/2025	राहु 04/11/2020 गुरु 15/05/2023 शनि 03/09/2024	राहु 04/11/2020 गुरु 15/05/2023 शनि 03/09/2024	चंद्र 22/02/2020 मंगल 08/09/2022 राहु 19/04/2025	गुरु 04/07/2024	गुरु 04/07/2024
मंगल 13/04/2020 राहु 11/02/2023 गुरु 21/08/2025	गुरु 22/03/2021 शनि 10/10/2023 बुध 27/10/2024	गुरु 22/03/2021 शनि 10/10/2023 बुध 27/10/2024	मंगल 13/04/2020 राहु 11/02/2023 गुरु 21/08/2025		
राहु - केतु	राहु - शुक्र	राहु - सूर्य	राहु - शुक्र	राहु - सूर्य	राहु - चंद्र
16/01/2026	03/02/2027	03/02/2030	27/10/2024	28/10/2027	21/09/2028
03/02/2027	03/02/2030	29/12/2030	28/10/2027	21/09/2028	23/03/2030
केतु 07/02/2026 शुक्र 05/08/2027 सूर्य 20/02/2030	शुक्र 28/04/2025 सूर्य 14/11/2027 चंद्र 05/11/2028	चंद्र 05/11/2028	शुक्र 07/02/2026 शुक्र 22/06/2025 सूर्य 14/11/2027	सूर्य 22/06/2025 चंद्र 11/12/2027 मंगल 07/12/2028	मंगल 07/12/2028
शुक्र 12/04/2026 सूर्य 29/09/2027 चंद्र 19/03/2030	सूर्य 22/06/2025 चंद्र 11/12/2027 मंगल 30/12/2027 राहु 28/02/2029	राहु 28/02/2029	शुक्र 12/04/2026 सूर्य 29/09/2027 चंद्र 19/03/2030	चंद्र 21/09/2025 मंगल 30/12/2027 राहु 28/02/2029	मंगल 30/12/2027
सूर्य 01/05/2026 चंद्र 29/12/2027 मंगल 07/04/2030	चंद्र 21/09/2025 मंगल 24/11/2025 राहु 17/02/2028 गुरु 12/05/2029	गुरु 12/05/2029	सूर्य 01/05/2026 चंद्र 29/12/2027 मंगल 07/04/2030	मंगल 24/11/2025 राहु 17/02/2028 गुरु 12/05/2029	राहु 17/02/2028
चंद्र 02/06/2026 मंगल 02/03/2028 राहु 26/05/2030	मंगल 24/11/2025 राहु 07/05/2026 गुरु 01/04/2028 शनि 06/08/2029	शनि 06/08/2029	चंद्र 02/06/2026 मंगल 02/03/2028 राहु 26/05/2030	गुरु 07/05/2026 गुरु 01/04/2028 शनि 06/08/2029	गुरु 01/04/2028
मंगल 25/06/2026 राहु 13/08/2028 गुरु 09/07/2030	गुरु 07/05/2026 गुरु 01/04/2028 शनि 06/08/2029	शनि 06/08/2029	मंगल 25/06/2026 राहु 13/08/2028 गुरु 09/07/2030	गुरु 30/09/2026 शनि 23/05/2028 बुध 23/10/2029	बुध 23/10/2029
राहु 21/08/2026 गुरु 07/01/2029 शनि 30/08/2030	शनि 23/03/2027 बुध 09/07/2028 केतु 24/11/2029	केतु 24/11/2029	राहु 21/08/2026 गुरु 07/01/2029 शनि 30/08/2030	शनि 23/03/2027 बुध 09/07/2028 केतु 24/11/2029	शनि 24/11/2029
गुरु 11/10/2026 शनि 29/06/2029 बुध 16/10/2030	बुध 25/08/2027 केतु 28/07/2028 शुक्र 23/02/2030	शुक्र 23/02/2030	गुरु 11/10/2026 शनि 29/06/2029 बुध 16/10/2030	बुध 25/08/2027 केतु 28/07/2028 शुक्र 23/02/2030	शुक्र 23/02/2030
शनि 11/12/2026 बुध 01/12/2029 केतु 04/11/2030	केतु 28/10/2027 शुक्र 21/09/2028 सूर्य 23/03/2030	सूर्य 23/03/2030	शनि 11/12/2026 बुध 01/12/2029 केतु 04/11/2030	केतु 28/10/2027 शुक्र 21/09/2028 सूर्य 23/03/2030	केतु 23/03/2030
राहु - चंद्र	राहु - मंगल	गुरु - गुरु	राहु - मंगल	गुरु - गुरु	गुरु - शनि
29/12/2030	29/06/2032	17/07/2033	23/03/2030	10/04/2031	28/05/2033
29/06/2032	17/07/2033	04/09/2035	10/04/2031	28/05/2033	10/12/2035
चंद्र 13/02/2031 मंगल 21/07/2032 गुरु 29/10/2033	मंगल 14/04/2030 गुरु 23/07/2031 शनि 22/10/2033	शनि 22/10/2033	चंद्र 13/02/2031 मंगल 21/07/2032 गुरु 29/10/2033	गुरु 23/07/2031 शनि 22/10/2033	
मंगल 16/03/2031 राहु 17/09/2032 शनि 02/03/2034	राहु 11/06/2030 शनि 23/11/2031 बुध 02/03/2034	बुध 02/03/2034	मंगल 16/03/2031 राहु 17/09/2032 शनि 02/03/2034	शनि 23/11/2031 बुध 02/03/2034	
राहु 07/06/2031 गुरु 07/11/2032 बुध 20/06/2034	गुरु 01/08/2030 बुध 13/03/2032 केतु 25/04/2034	केतु 25/04/2034	राहु 07/06/2031 गुरु 07/11/2032 बुध 20/06/2034	बुध 13/03/2032 केतु 25/04/2034	
गुरु 19/08/2031 शनि 07/01/2033 केतु 04/08/2034	शनि 30/09/2030 केतु 27/04/2032 शुक्र 26/09/2034	शुक्र 26/09/2034	गुरु 19/08/2031 शनि 07/01/2033 केतु 04/08/2034	शुक्र 27/04/2032 शुक्र 26/09/2034	
शनि 13/11/2031 बुध 02/03/2033 शुक्र 12/12/2034	बुध 24/11/2030 शुक्र 04/09/2032 सूर्य 11/11/2034	सूर्य 11/11/2034	शनि 13/11/2031 बुध 02/03/2033 शुक्र 12/12/2034	शुक्र 04/09/2032 सूर्य 11/11/2034	
बुध 30/01/2032 केतु 24/03/2033 सूर्य 20/01/2035	केतु 16/12/2030 सूर्य 13/10/2032 चंद्र 28/01/2035	चंद्र 28/01/2035	बुध 30/01/2032 केतु 24/03/2033 सूर्य 20/01/2035	चंद्र 28/01/2032 मंगल 23/03/2035	
केतु 02/03/2032 शुक्र 27/05/2033 चंद्र 26/03/2035	शुक्र 18/02/2031 चंद्र 17/12/2032 मंगल 23/03/2035	मंगल 23/03/2035	केतु 02/03/2032 शुक्र 27/05/2033 चंद्र 26/03/2035	मंगल 23/03/2035	
शुक्र 01/06/2032 सूर्य 15/06/2033 मंगल 11/05/2035	सूर्य 09/03/2031 मंगल 01/02/2033 राहु 08/08/2035	राहु 08/08/2035	शुक्र 01/06/2032 सूर्य 15/06/2033 मंगल 11/05/2035	राहु 08/08/2035	
सूर्य 29/06/2032 चंद्र 17/07/2033 राहु 04/09/2035	चंद्र 10/04/2031 राहु 28/05/2033 गुरु 10/12/2035	गुरु 10/12/2035	सूर्य 29/06/2032 चंद्र 17/07/2033 राहु 04/09/2035	गुरु 10/12/2035	

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांको से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलज्जन लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अञ्ज, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

5	मूलांक	2
6	भाग्यांक	8
3, 5, 9, 6	मित्र अंक	2, 7, 8
2, 4, 8	शत्रु अंक	4, 5, 6
23, 32, 41, 50, 59	शुभ वर्ष	20, 29, 38, 47, 56
सोम, मंगल, गुरु	शुभ दिन	मंगल, सोम, गुरु
चन्द्र, मंगल, गुरु	शुभ ग्रह	मंगल, चन्द्र, गुरु
कर्क, धनु	मित्र राशि	कर्क, धनु
मिथुन, वृश्चिक, मकर	मित्र लग्न	तुला, मीन, वृष
हनुमान	अनुकूल देवता	हनुमान
पुखराज	शुभ रत्न	मोती
सुनहला, पीला हकीक	शुभ उपरत्न	चन्द्रमणि
मूँगा	भाग्य रत्न	पुखराज
कांसा	शुभ धातु	रजत
पीत	शुभ रंग	श्वेत
पूर्वोत्तर	शुभ दिशा	पश्चिमोत्तर
संध्या	शुभ समय	संध्या
हल्दी, पुस्तक, पीत पुष्प	दान पदार्थ	शंख, कपूर, श्वेतचन्दन
दाल चना	दान अञ्ज	चावल
घी	दान द्रव्य	दही



## रत्न चयन

किसी भी कुंडली में दशानुसार ग्रह का उपाय एवं रत्न धारण करने से शुभत्व में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक रूप से विशिष्ट ग्रह का मंत्रोच्चारण करने से उस ग्रह की रशिमयों की मानव शरीर के चारों ओर सुरक्षा शृंखला बन जाती है एवं रत्न रशिमयों को सोखकर मानव शरीर में प्रवाहित कर शुभत्व में वृद्धि करता है। अतः रत्न का बेदाग होना एवं शरीर से स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक माना गया है।

सामान्यतया उपाय ग्रह दशा के फल की वृद्धि के लिए महादशा स्वामी का किया जाता है। उपाय में मंत्रोच्चारण, दान एवं व्रत ही प्रमुख हैं। रत्न निर्बल परंतु लग्नेश, भाग्येश या योगकारक ग्रहों का पहना जाता है। आपको कब कौन सा उपाय या रत्न धारण करना चाहिए नीचे तालिका में उसके कार्यसिद्धि क्षेत्र सहित दिया गया है। महादशाओं में रत्नों के तीन-तीन विकल्प दिए गए हैं। आपको कोई भी विकल्प उसकी कार्यसिद्धि क्षेत्र एवं क्षमता देखकर अपनी आवश्यकतानुसार पहन सकते हैं तथा अतिरिक्त उपाय भी अपनी क्षमतानुसार कर सकते हैं।

जीवन रत्न:  
भाग्य रत्न:  
कारक रत्न:  
शुभ उपरत्न:

पुखराज  
मूँगा  
मोती  
गोमेद

### Boy

स्वास्थ्य, व्यावसायिक उन्नति  
धन, भाग्योदय  
धन, सन्तति सुख  
स्वास्थ्य

जीवन रत्न:  
भाग्य रत्न:  
कारक रत्न:

मोती  
पुखराज  
मूँगा

### Girl

व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य  
धनार्जन, शत्रु व रोग मुक्ति, भाग्योदय  
कम खर्च, व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख

रत्न	ग्रह	रक्ती	धातु	अंगुली	दिन	समय	नक्षत्र
माणिक्य	सूर्य	4	सोना	अना	रविवार	सुबह	कृतिका, उ०फाल्युनी, उत्तराषाढ़ा
मोती	चन्द्र	4	चांदी	कनि	सोमवार	सुबह	रोहिणी, हस्त, श्रवण
मूँगा	मंगल	6	चांदी	अना	मंगलवार	सुबह	मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा
पन्ना	बुध	4	सोना	कनि	बुधवार	सुबह	आश्लेषा, ज्येष्ठा, ऐवती
पुखराज	गुरु	4	सोना	तर्जन	गुरुवार	सुबह	पुनर्वसु, विशाखा, पू०भाद्रपद
हीरा	शुक्र	1	प्लेटि	कनि	शुक्रवार	सुबह	भर्णी, पू०फाल्युनी, पूर्वाषाढ़ा
वीलम	शनि	4	पंचधातु	मध्य	शनिवार	शाम	पुष्य, अनुराधा, उ०भाद्रपद
गोमेद	राहु	5	अष्टधातु	मध्य	शनिवार	रात्रि	आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा
लहसुनिया केतु		6	चांदी	अना	गुरुवार	रात्रि	अश्विनी, मघा, मूल



Indian *Astrology*

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर दैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं दैया का प्रभाव छाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक दैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### **प्रथम चक्र:**

अष्टम स्थानस्थ दैया	04/03/1987-16/12/1987
साढ़ेसाती प्रथम दैया	10/08/1995-16/04/1998
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	16/04/1998-05/06/2000
साढ़ेसाती तृतीय दैया	05/06/2000-22/07/2002
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	05/09/2004-01/11/2006

### **द्वितीय चक्र:**

अष्टम स्थानस्थ दैया	02/11/2014-19/01/2017
साढ़ेसाती प्रथम दैया	24/03/2025-26/10/2027
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	26/10/2027-11/04/2030
साढ़ेसाती तृतीय दैया	11/04/2030-25/05/2032
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	06/07/2034-20/08/2036

### **तृतीय चक्र:**

अष्टम स्थानस्थ दैया	02/12/2043-29/11/2046
साढ़ेसाती प्रथम दैया	09/09/2054-01/04/2057
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	01/04/2057-22/05/2059
साढ़ेसाती तृतीय दैया	22/05/2059-05/07/2061
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	15/02/2064-03/10/2065

### **शनि का दैया फल**

दैया के प्रकार	फल क्षेत्र
अष्टम स्थानस्थ दैया	अशुभ बदनामी
साढ़ेसाती प्रथम दैया	सम स्वास्थ्य
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	अशुभ धन
साढ़ेसाती तृतीय दैया	शुभ पराक्रम
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	अशुभ सन्तति कष्ट

### **प्रथम चक्र:**

साढ़ेसाती प्रथम दैया	10/08/1995-16/04/1998
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	16/04/1998-05/06/2000
साढ़ेसाती तृतीय दैया	05/06/2000-22/07/2002
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	05/09/2004-01/11/2006
अष्टम स्थानस्थ दैया	02/11/2014-19/01/2017

### **द्वितीय चक्र:**

साढ़ेसाती प्रथम दैया	24/03/2025-26/10/2027
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	26/10/2027-11/04/2030
साढ़ेसाती तृतीय दैया	11/04/2030-25/05/2032
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	06/07/2034-20/08/2036
अष्टम स्थानस्थ दैया	02/12/2043-29/11/2046

### **तृतीय चक्र:**

साढ़ेसाती प्रथम दैया	09/09/2054-01/04/2057
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	01/04/2057-22/05/2059
साढ़ेसाती तृतीय दैया	22/05/2059-05/07/2061
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	15/02/2064-03/10/2065
अष्टम स्थानस्थ दैया	20/04/2073-04/08/2076

### **शनि का दैया फल**

दैया के प्रकार	फल क्षेत्र
साढ़ेसाती प्रथम दैया	सम भाग्योदय
साढ़ेसाती द्वितीय दैया	अशुभ व्यावसायिक परेशानी
साढ़ेसाती तृतीय दैया	शुभ धनार्जन
चतुर्थ स्थानस्थ दैया	अशुभ बुरा स्वास्थ्य
अष्टम स्थानस्थ दैया	अशुभ सन्तति कष्ट

## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वं मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत,
2. कुलिक,
3. वासुकि,
4. शङ्खपाल,
5. पद्म,
6. महापद्म,
7. तक्षक,
8. कर्कटक,
9. शङ्खचूड़,
10. घातक,
11. विषधर,
12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलार्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदित गोलार्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

### काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीड़ा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दर्शा आदि आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र

पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

#### Boy

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

#### Girl

आपकी जन्मकुण्डली में कर्कोटक नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। फलस्वरूप जातक को भाग्योदय होने में आंशिक रूप से व्यवधान उपस्थित हो जाता है। नौकरी में थोड़ा बहुत रुकावट आती है या कभी पदावनति होने का भय होता है। प्रायः जातक को पैतृक सम्पत्ति का मनोवांछित लाभ नहीं मिलता है। व्यापारादि कार्यों में थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और विशेष परिश्रम करने के बावजूद भी उसका सही फल प्राप्त नहीं होता है। कामों में स्थिरता प्रायः नहीं आ पाती।

इस योग के प्रभाव से जातक अपने मित्रों के द्वारा कभी थोड़ा बहुत छले जाते हैं। जिस कारण जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। कभी जातक के शरीर में रोग व्याधि ग्रसित कर लेती है तथा आंशिक रूप में मानसिक परेशानी घेरे रहती है। जातक को कुटुम्ब से अपयश मिलता है एवं आत्मीय परिजनों से सम्मान नहीं मिलता है।

इस योग के कारण जातक को अपनी वाणी पर नियन्त्रण नहीं रहता एवं वाणी कभी-कभी दूषित हो जाती है। परिणामस्वरूप जातक का स्वभाव चिङ्गिझा हो जाता है। बात-बात पर लड़ाई-झगड़े करने को भी तैयार हो जाता है और जातक को आंशिक रूप से आर्थिक नुकसान होता है तथा उधार में दिया हुआ पैसा प्रायः दूब ही जाता है। जातक को कभी शस्त्राधात का भय होता है। जातक के अनेक शत्रु होते हैं। वे बड़्यन्त्र रचते रहते हैं, परन्तु अपने बड़्यन्त्र में वे कभी सफल नहीं होते। जातक को अकाल मृत्यु का भय बना रहता है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।

8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।
11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन, लोहे की अंगूठी धारण करें।

#### विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगेरे।




Indian *Astrology*

## अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	क्षत्रिय	क्षत्रिय	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	चतुष्पाद	चतुष्पाद	2	2.00	--	स्वभाव
तारा	जन्म	जन्म	3	3.00	--	भाग्य
योनि	गज	गज	4	4.00	--	यौन विचार
मैत्री	मंगल	मंगल	5	5.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	मनुष्य	मनुष्य	6	6.00	--	सामाजिकता
भकूट	मेष	मेष	7	7.00	--	जीवन शैली
नाड़ी	मध्य	मध्य	8	0.00	हाँ	स्वास्थ्य/संतान
<b>कुल :</b>			<b>36</b>	<b>28.00</b>		

**कुल : 28 / 36**



## अष्टकूट मिलान

नाड़ी दोष कष्टदायक है क्योंकि दोनों के एक ही नक्षत्र एवं एक ही चरण है।

Boy का वर्ग मृग है तथा Girl का वर्ग मृग है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार Boy और Girl का मिलान अत्युत्तम है।

### मंगलीक दोष मिलान

Boy मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में द्वितीय भाव में स्थित है।

Girl मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में द्वादश भाव में स्थित है।

**व्यये च कुजदोषः कन्यामिथुनयोरविना ।  
द्वादशे भौमदोषस्तु वृषतौलिकयोरविना ॥**

अर्थात् व्यय भाव में यदि मंगल बुध तथा शुक्र की राशियों में स्थित हो तो भौम दोष नहीं होता है।

क्योंकि मंगल Girl कि कुण्डली में द्वादश भाव में मिथुन राशि में स्थित है अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

Boy तथा Girl में मंगलीक मिलान ठीक है।

### निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।



Indian **Astrology**

## मेलापक फलित

### स्वभाव

Boy तथा Girl दोनों की मेष राशि है। यह राशि अग्नि तत्व से युक्त है। अतः दोनों की एक ही राशि होने के कारण शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर यह मिलान उत्तम रहेगा तथा जीवन में एक आदर्श दम्पति के रूप में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने में ये समर्थ रहेंगे। इनके आपसी सम्बन्धों में भी मधुरता बनी रहेगी।

आप दोनों की राशि का स्वामी मंगल है। अतः इसके प्रभाव से आप दोनों के मध्य मित्रता एवं परस्पर सामंजस्य का भाव नित्य बना रहेगा। इसके प्रभाव से आप तेजस्वी उत्साही एवं स्वतंत्र प्रवृत्ति के होंगे तथा एक दूसरे के अस्तित्व को पूर्ण सम्मान प्रदान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जिससे पारिवारिक आप आवश्यक सुखोपभोग की सामग्री एवं उपकरणों को अर्जित करने में समर्थ रहेंगे एवं सुखपूर्वक इनका उपभोग भी करेंगे।

Boy और Girl दोनों का वश्य चतुष्पद है। इसके शुभ प्रभाव से इनकी अभिलेखियों में समानता रहेगी तथा आपस में किसी भी प्रकार के सैद्धान्तिक मतभेदों की व्यूनता रहेगी जिससे इनका दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। साथ ही दोनों का परस्पर आत्मिक र्जेह एवं प्रेम का भाव रहेगा तथा सांसारिक सुख में एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में समर्थ रहेंगे जिससे परस्पर आकर्षण आसक्ति एवं सम्मिलन का भाव नित्य बना रहेगा।

आप दोनों का वर्ण क्षत्रिय है। अतः कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमताएं समान होंगी। अतः आपस में व्यूनाधिक का भाव नहीं रहेगा। साथ ही दोनों सक्रिय प्रकृति के होंगे तथा किसी भी कार्य को उत्साह पराक्रम एवं परिश्रम पूर्वक करने में समर्थ रहेंगे तथा साहस पूर्वक जीवन में समस्याओं का सामना तथा समाधान करने में समर्थ रहेंगे। अतः अपने आत्मविश्वास एवं परिश्रम से आप सुखी जीवन व्यतीत करने में समर्थ रहेंगे।

### धन

Boy और Girl दोनों जन्म तारा में उत्पन्न हुए हैं। अतः इसके शुभ प्रभाव से इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी तथा प्रचुर मात्रा में धन एवं लाभ अर्जित करने में समर्थ होंगे। साथ ही भक्तृ सम रहेगा। अतः आर्थिक स्थिति पर भक्तृ का शुभ या अशुभ कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन Girl पर मंगल का अशुभ प्रभाव होगा जिससे यदा कदा वे हानि या व्यय का सामना कर सकती है परन्तु आर्थिक स्थिति पर इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा।

Boy और Girl दोनों को पैतृक धन या सम्पत्ति की प्राप्ति हो सकती है तथा धनऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने में भी समर्थ होंगे। लेकिन मंगल के अशुभ प्रभाव से Girl अनावश्यक व्यय करने में तत्पर रहेंगी जिससे यदा कदा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अतः Girl को चाहिए कि ऐसी प्रवृत्ति की यत्नपूर्वक उपेक्षा करें।



## स्वास्थ्य

Boy और Girl दोनों मध्य नाड़ी में उत्पन्न हुए हैं अतः नाड़ी दोष से ये प्रभावित होंगे। इसके प्रभाव से इनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तथा समय समय पर शारीरिक दुर्बलता का आभास होगा। साथ ही Boy के लिए मंगल भी अशुभ रहेगा जिससे वे रक्त या पित संबंधी कष्ट प्राप्त करेंगे तथा हृदय संबंधी परेशानी भी होगी इसके अतिरिक्त धातु या गुप्त रोगों की संभावना भी हो सकती है। इससे परस्पर संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा अतः मिलान के लिए यत्नपूर्वक इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तथापि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए Boy को नियमित रूप से हनुमानजी की पूजा तथा मंगलवार का उपवास करना श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है।

## संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से Boy और Girl का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त Boy और Girl के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में Girl के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन Girl को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में Girl को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुदंर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से Boy और Girl सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आङ्गापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार Boy और Girl का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

## ससुराल-सुश्री

Girl के अपनी सास से सामान्यतया अच्छे संबंध रहेंगे परन्तु यदा कदा उनके मध्य अनावश्यक मतभेद तथा तनाव भी उत्पन्न होंगे परन्तु परस्पर सामंजस्य के द्वारा उनका समाधान हो जाएगा तथा इससे विशेष कठिनाई नहीं होगी। साथ ही Girl सास से अपनी माता के समान व्यवहार करेंगी तथा इसी प्रकार उनकी सेवा तथा सुख सुविधा का ध्यान रखेंगी।

लेकिन ससुर को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने में Girl को काफी परेशानी तथा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यदि Girl धैर्य, गंभीरता तथा सामंजस्य का उनके प्रति प्रदर्शन करेंगी तो उनसे किंचित् मात्रा में सहानुभूति प्राप्त हो सकती है। देवर एवं ननदों से Girl के संबंधों में मधुरता का अभाव रहेगा तथा परस्पर ईर्ष्या तथा प्रतिद्वन्द्विता का भाव रहेगा। इस प्रकार सामंजस्य एवं बुद्धिमता से ही Girl ससुराल में अनुकूल वातावरण प्राप्त कर सकती है।

## ससुराल-श्री

Boy की सास से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा आपसी सामंजस्य के कारण एक दूसरे के प्रति स्नेह तथा सम्मान का भाव रहेगा तथापि यदा कदा संबंधों में औपचारिकता के भाव का भी समावेश रहेगा। उनके मध्य मतभेदों की व्यूनता रहेगी। अतः समय समय पर Boy सपनीक ससुराल के लोगों से मिलने जाया करेंगे।

लेकिन Boy ससुर के साथ मधुर संबंधों में नित्य वृद्धि करने में समर्थ रहेंगे तथा आपसी सामंजस्य एवं बुद्धिमता से इनके मध्य अपनत्व का भाव बना रहेगा तथा समय समय पर उनसे इन्हें उपयोगी सलाह भी मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त साले एवं सालियों से भी मित्रतापूर्ण संबंध रहेंगे तथा उनसे यथोचित सम्मान सहयोग एवं स्नेह की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ससुराल के लोगों का Boy के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा तथा सास को छोड़कर अन्य लोगों से अनौपचारिक संबंध रहेंगे। फलतः वे इनका पूर्ण सम्मान करेंगे तथा अपना वांछित सहयोग समय समय पर प्रदान करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे।

## अंक ज्योतिष फल

### Boy

आपका जन्म दिनांक पाँच होने से अंक ज्योतिष के आधार पर आपका मूलांक पाँच होता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है। मूलांक पाँच के प्रभाववश आप रोजगार के क्षेत्र में नौकरी की अपेक्षा व्यापार के मार्ग की ओर अधिक आकृष्ट रहेंगे। यदि आप नौकरी का मार्ग चुनते हैं तो ऐसा रोजगार आपको अधिक पसन्द आयेगा। जहाँ लेन-देन, लेखा, यांत्रिकी, वाणिज्य, इत्यादि का कार्य होता हो। कम्पनी, फैक्ट्री, उच्च व्यापार जगत आपको रास आयेगा।

बुधग्रह के प्रभाववश आपके अन्दर वाक्पटुता, तर्कशक्ति अच्छी रहेगी एवं सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी बातों से प्रभावित करने में समर्थ रहेंगे। आप हर कार्य को जल्दी समाप्त करना पसन्द करेंगे एवं ऐसे रोजगार की ओर उन्मुख होंगे जिसमें शीघ्र सफलता कम मेहनत तथा अधिक लाभ पर प्राप्त होती रहे। आप थोड़े जल्दबाज एवं फुर्तीले भी रहेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में आप कभी-कभी हानियों का भी सामना करेंगे।

आपकी मानसिक स्थिति चंचल होने से आपको शीघ्र क्रोध आ जाया करेगा एवं कभी-कभी चिड़चिड़ाहट भी रहा करेगी। आप अधिकांशतः बुद्धि जनित कार्यों में रुचि लेंगे। इस कारण आपकी दिमागी ताकत अधिक खर्च होने से अधिक आयु में आपको स्नायुवेग द्वारा उत्पन्न रोगों का भी सामना करना पड़ेगा।

मूलांक पाँच का स्वामी बुध ग्रह होने से कमोवेश बुध के गुण-अवगुण आपके अन्दर आयेंगे। विद्याध्यन लेखन-पठन की ओर आपकी विशेष रुचि रहेगी।

### Girl

आपका जन्म दिनांक दो होने से अंक ज्योतिष के आधार पर आपका मूलांक दो होता है। मूलांक दो का स्वामी चन्द्र ग्रह को माना गया है। जिसके प्रभाववश आप एक कल्पनाशील, कलाप्रिय एवं स्नेहशील स्वभाव की महिला होंगी। आपकी कल्पनाशक्ति उच्च कोटि की रहेगी, लेकिन शारीरिक शक्ति आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आपका बुद्धि चातुर्य काफी अच्छा होगा एवं बुद्धि विवेक के कार्यों में आप दूसरों से बाजी मार ले जायेंगी। जिस प्रकार से आपके मूलांक स्वामी चन्द्रमा का रूप एकसा नहीं रहता समयानुसार घटता-बढ़ता रहता है, उसी तरह आप भी अपने जीवन में एक विचार या योजना पर दृढ़ नहीं रहेंगी।

आपकी योजनाओं में बदलाव होता रहेगा एवं एक योजना को छोड़कर दूसरी को प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति आपके अन्दर पाई जायेगी। धीरज एवं अध्यवसाय की आप में कमी रहेगी। इससे आपके कई कार्य समय पर पूर्ण नहीं होंगे। आत्म विश्वास की मात्रा आप के अन्दर कम रहेगी एवं स्वयं अपने ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं रख पायेंगी, जिससे कभी-कभी आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा।

आपकी सामाजिक स्थिति उत्तम दर्जे की रहेगी एवं मानसिक रूप से जिसे आप अपना लेंगी वैसे ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। जनता के मध्य आप एक लोकप्रिय महिला होंगी तथा स्वयं

की मेहनत से अपनी सामाजिक स्थिति निर्मित करेंगी। आपको अवस्थानुसार नेत्र, उदर, एवं मूत्र संबंधी रोगों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक तनाव तथा शीतरोग भी परेशान करेंगे। जल से उत्पन्न रोग कफ, सर्दी-जुकाम, सिरदर्द की शिकायतें भी यदाकदा होंगी।

### **Boy**

भाग्यांक 6 के स्वामी शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपका भाग्योदय चौंसठ कलाओं के अन्दर ही होगा। शुक्र कला का दाता है। अतः आपके अन्दर ललित कलाओं में से कुछ कलाओं का समावेश होगा। आप कला के क्षेत्र में, कला के द्वारा जीवन यापन करेंगे। कलात्मक वस्तुएं आपको लाभ प्रदान करेंगी। आप विपरीत योनि के प्रति सहज आकर्षण के अवगुण वश तन-मन एवं धन का व्यय करेंगे। सौन्दर्य की ओर आकर्षण आपकी कमजोरी रहेगा।

आपके कार्य करने के स्थान तथा रहने के स्थान की साज-सजावट बनाये रखने में आपको हमेशा धन व्यय करते रहना होगा। क्योंकि सुसज्जित परिवेश में रहना आपके मनोनुकूल है। आप वस्त्र आभूषण के शौकीन रहेंगे। धन स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शान-शौकत बनी रहेगी। सामने वाले व्यक्ति आपको हमेशा धनी समझते रहेंगे, भले ही आप यदा-कदा कड़की के दिनों में चल रहे हों। किसी भी कला के क्षेत्र को आप अपना रोजगार का क्षेत्र चुनते हैं, तो आपकी उन्नति निश्चित ही होगी।

### **Girl**

भाग्यांक आठ का स्वामी शनि ग्रह को माना गया है। शनि ग्रह अति धीमा होने से तीस वर्ष में एक राशिपथ भ्रमणचक्र पूर्ण करता है। इसके प्रभाव से आपका भाग्योदय भी धीरे-धीरे होगा। आप भले ही कितनी भी गरीबी में उत्पन्न हुई हों आपका भाग्य सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जायेगा। इस मध्य रुकावटें भी आयेंगी, जिन्हें आप धैर्य एवं अपने श्रम से पार कर लेंगी। आलस्य एवं निराशा आपकी तरक्की की बाधाएं रहेंगी। इन पर विजय प्राप्त करना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करेंगी। आपकी सभी सफलताएं विघ्नों से युक्त होते हुये भी आप आसानी से अपनी तरक्की के रास्ते स्वयं निर्मित कर लेंगी। आपका भाग्योदय 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही होगा। बचपन की अपेक्षा मध्य तथा अन्तिम अवस्था आपके भाग्योदय में विशेष सहायक होगी। अन्तिम अवस्था आपकी अच्छी रहेगी एवं धन सम्पत्ति का पूर्ण सुख प्राप्त करेंगी।

### Boy

आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में मीन लग्न में हुआ था। आपके जन्मकाल मेदिनीय क्षितिज पर कन्या का नवमांश एवं मीन का द्रेष्काण भी उद्दित था। इस संबंधित लग्नादिक ज्योतिषीय आकृति आपके जीवन को धन संपत्ति से युक्त आमोद-प्रमोद एवं हर्षोल्लास से परिपूर्ण आनंदमय जीवन बिताने के साधनों से युक्त करता है।

**प्रायः** हर दशा में ज्योतिषीय प्रभाव आपका पक्षधर है। यदि आप अपने हस्तगत कार्य व्यवसाय को समय पर सुव्यवस्थित ढंग एवं समर्पण की भावना से संपादित कर लिए तो आपका जीवन सफल होने की संभावना है, बर्ती कि आप सकारात्मक ढंग से कार्यों का संपादन करें। फलस्वरूप यह आपके लिए उन्नति कारक होगा। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि आप वासनात्मक प्रवृत्ति को बहुत महत्व देकर इन कार्यों से संबंधित रहते हैं। यदि आप इस प्रवृत्ति हेतु सतर्कता नहीं बरतें तो यह वासना आपको मिठी पलीत कर देगा। अर्थात् आपका विनाश कर देगा। आप इनका उन्मूलन करें अन्यथा इस उत्तेजना के कारण आपके जीवन की ललिमा नष्ट हो जाएगी तथा इस प्रवृत्ति के कारण मात्र आपका परिवार ही अस्त-व्यस्त नहीं हो जाएगा। बल्कि यह आपको अकर्मण्य बना कर आपके कार्य कलाप से भी दिशा हीन बना देगा। परंतु यदि आप इस प्रवृत्ति को समाप्त कर दिए तो आप बहुत अच्छी प्रकार उन्नति कर सकेंगे। आप धन संचय कर सकेंगे। इस प्रकार आप मात्र अपने उपार्जन को ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आप धन संपत्ति भी सर्वथा अर्जित करेंगे। आपमें ऐसी क्षमता है कि आप अपने प्रतिपक्षी को परास्त कर देंगे जो कि आपके कार्य-व्यवसाय को नष्ट करने का प्रयास करेगा।

आप मात्र एक सुखद एवं अभिमंत्रित भवन के स्वामी होंगे। बल्कि हर दशा में अपने मित्रों के अपना कर अपनी मित्र मंडली का विस्तार करेंगे। आप समाजिक क्लब के सदस्य होंगे। आप अपनी भद्रता एवं अतिथ्य सत्कार के कारण अपने मित्र मंडली में प्रख्यात भी होंगे। परंतु आपको कुछ समस्याओं से मुठ-भेड़ भी करना पड़ेगा। आप अन्य लोगों के लिए किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने वाले बल्कि अतिशय विश्वास पात्र हैं। आप किसी के भी साथ सामंजस्य एवं सकारात्मक फल प्राप्ति की उत्कंठ रखते हैं। जब आप किसी भी मित्र के साथ प्रतिज्ञा करते हैं उसे बहुत अच्छी प्रकार निभाते हैं। परंतु क्या वे इस प्रकार पीछे भी लौट सकते हैं। नहीं। वास्तव में संयोगवश ऐसा कुछ घटित हो जाए उस परिस्थिति में जो आपसे संबंधित है। वे लोग आपकी आवश्यकता के समय अथवा जरूरत पड़ने पर अपने कार्य को त्याग कर आपके पक्ष में अपना योगदान करते हैं। अतएव आप उन पर अत्यंत भरोसा कर के अन्यों को उपेक्षित अथवा वहिष्कृत कर देते हैं।

यदि आप सतर्कता पूर्वक मर्यादित पथ पर चलते हैं तो आपके परिवारिक सदस्य तथा सामान्य जन आपके गुणों एवं साहसिक प्रवृत्ति तथा दानशीलता हेतु आपकी प्रशंसा करेंगे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी हैं। आप तीर्थ स्थलों का परिदर्शन करेंगे एवं पौधावस्था में आप भक्ति के प्रदर्शन में अभिलाचि रखेंगे तथा धर्म-दर्शन एवं पराविज्ञान में दक्ष हो जाएंगे। आप इस विषय में बहुत अधिक ज्ञानार्जन कर सकते हैं। यदि आप चयन करेंगे तो कोई छोटा धर्मोपदेशक भी बन सकते

हैं।

आपके लिए साप्ताहिक दिनों में अनुकूल दिन गुरुवार, मंगलवार एवं रविवार का दिन उत्तम हैं। शेष साप्ताहिक तीन दिन यथा बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार का दिन सामान्य फलदायी है।

आपके लिए अंकों में उत्तम एवं विश्वसनीय अंक 1, 3, 4 एवं 9 अंक हैं। परंतु हर दशा में 8 अंक अनुकूल नहीं है।

आपके लिए रंगों में रंग पीला, लाल, गुलाबी एवं नारंगी रंग आपके लिए अनुकूल हैं। परंतु नीला रंग आपके लिए किसी भी दशा में अनुकूल नहीं है।

## Girl

आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में कर्क लग्नोदय काल हुआ-लग्न के साथ-साथ मेदिनीय क्षितिज पर मीन राशि का नवमांश एवं द्रेष्काण भी उदित था। आपके जन्म आकृति से यह निर्देश प्राप्त होता है कि आप में दो प्रकार की विशेषता विद्यमान हैं। प्रथम तो यह है कि आप आस्तिक विचार धारा की भगवान के प्रति समर्पित प्राणी हैं तथा भगवान से भयभीत रहती है। दूसरा यह है कि आपके मन में धार्मिक तीर्थ-स्थानों का भ्रमण, दर्शन की अभिरुचि रहती है तथा आप दानशील प्रवृत्ति की प्राणी हैं। आप पूर्ण रूपेण सांसारिक विषयों के प्रति रुचिवान हैं। आप ऐहिक सुखों के भोग हेतु किस प्रकार धन उपार्जन किया जाए। अर्थात् चाहे जो कुछ भी हों जीवन के अन्तिम किनारे तक सुख भोग एवं आनन्द प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपको मद्यपान से स्नेह हैं। आप इन दो भिन्न-भिन्न विशेषताओं को किस प्रकार समतल करेंगी यह आप ही जानती हैं।

आप वास्तव में सामंजस्य के विद्यान की ज्ञाता है तथा सामंजस्य स्थापित करती हैं। आप कुशाग्रबुद्धि की प्रशिक्षित विद्वतापूर्ण प्रतिभा सम्पन्न हैं। आप धन प्राप्ति हेतु अनीतिपूर्ण अभिलाषा नहीं रखती।

परन्तु आपकी जन्मजात प्रवृत्ति है कि आपके दिमाग में यह बात रहती है कि किसी भी बातों के सम्बंध में भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करें। आप किसी के साथ छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं कर दूसरों के साथ विश्वसनीयता पूर्वक सहयोग एवं सहारा लेकर किसी भी वस्तु को हस्तगत करना चाहिए की नीति अपनाती हैं।

आपको अपने जीवन में सदैव उत्तम एवं मनोहर आनन्द प्राप्ति की अभिरुचि रहती है क्योंकि आप स्वार्थी प्राणी हैं। इस दृष्टिकोण से आपको विशेषतया सतर्कता अपनाना चाहिए। कम से कम परिवार के सामने अपनी व्यक्तिगत महत्वकांक्षा को सीमित रखें। आपको अपनी पति एवं सुसन्नान के प्रति आज्ञाकारी भावनाओं से युक्त समर्पित भाव से सदैव तत्पर रहने से प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। अतः आप निश्चित रूप से परिवारिक सदस्यों के सम्बंध की सीमा का उलंघन नहीं करें। आपको घर गृहस्थी द्वारा संयमित सुख साधन प्राप्त होगा। कर्क राशीय प्रभाव से आप वास्तव में अध्ययन तथा मार्गदर्शन कर सकती हैं। आप अपने निर्देशित शक्ति सम्पन्नता के पथ पर चलकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

आपमें यह सामर्थ्य विद्यमान है कि आप कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक सम्पन्न कर

सकती हैं। आप अपनी तामसी प्रवृत्ति का त्याग कर अथवा अवरुद्ध कर जन सामान्य में प्रसिद्ध प्राप्त करेंगी।

आप औसतन लम्बी छरहे बदन, चेहरा एवं पूर्ण (गाल) कपोल युक्त सुन्दर है। आप समय के महत्व को समझ कर चल सकती हैं और आप बेढ़ंगी चाल चलन को त्याग दें बल्कि दृढ़तापूर्वक शोभनीय आचरण करें। यदि आप अधिक भोजन ग्रहण करती रहीं तो आपके शरीर का अपरिमेय वृद्धि हो जाएगी तथा आप असामान्य दिखने लगेंगी। आपकी किशोरावस्था में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा आप अधिक समय तक मनोहर सुन्दर दिखेंगी। आपके शरीर का समुचित विकास होगा। कर्क राशीय सिद्धान्त के प्रभाव से आपकी छाती में तथा पेट सम्बंधी रोगों (समस्याओं) के प्रति सावधानी बरतें क्योंकि कुछ वर्षों के पश्चात् पाचन क्रिया विकृत होकर आपके सामने दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। साथ ही आप शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करने की आदत डालें क्योंकि आप एक सुन्दर (प्रसन्न) प्राणी हैं।

आप हिस्ट्रीया रोग, जॉनडिस (पीलिया रोग) एवं जलोदर रोग से प्रभावित तथा आक्रान्त हो सकती हैं। आप सतर्कता पूर्वक नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराती रहे।

आपके लिए साप्ताहिक दिनों में शुक्रवार एवं शनिवार पूर्ण आनन्द प्रदायक नहीं होगा। मंगलवार, गुरुवार एवं सोमवार का दिन सफलता प्रदायक होगा। बुधवार का दिन चिन्तनीय एवं व्ययकारी होगा। परन्तु रविवार का दिन सचेत रहने योग्य है।

आप अंक 4 एवं 6 अंक का व्यवहार हेतु (पसन्द) चुन सकते हैं। अंक 3 एवं 5 अंकों का परित्याग करें।

आपके लिए अनुकूल रंग सफेद, क्रीमकलर पीला एवं लाल रंग उत्तम है। कृपया रंग हरा एवं ब्लू रंग के वस्त्रादि धारण नहीं करें।



# स्वारथ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

## Boy

आपके जन्म समय में लग्न में मीन राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बृहस्पति है। सामान्यतया मीन लग्न में उत्पन्न जातक स्वस्थ एवं दर्शनीय होते हैं तथा सरलता एवं समानता का इनको प्रतीक माना जाता है। इनके मुख मंडल पर सौम्यता की छाप हमेशा विद्यमान रहती है। ये विद्वान एवं बुद्धिमान होते हैं तथा नवीन विचारों का सूजन करने में समर्थ रहते हैं। इनके विचारों से सामाजिक लोग प्रभावित तथा आकर्षित रहते हैं। भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग करने की इनकी प्रबल इच्छा रहती है तथा इससे इन्हें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त धनैश्वर्य से ये युक्त रहते हैं एवं विभिन्न खोतों से धनार्जन करने आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहते हैं। साथ ही चिन्तन एवं मननशीलता का भाव भी इनमें रहता है।

प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करके इनको शांति एवं सन्तुष्टि की प्राप्ति होती है। प्रेम के क्षेत्र में ये सरल एवं भावुक रहते हैं परन्तु व्यवहार कुशल होते हैं। अतः सांसारिक कार्यों में उचित सफलता अर्जित करके अपने उन्नति मार्ग प्रशस्त करने में सफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त नवीन वस्तुओं के उत्पादन आदि में इनकी ऊची रहती है तथा इस क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान रहता है।

अतः इसके प्रभाव से आप स्वस्थ एवं बलवान रहेंगे तथा व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा जिससे अन्य जन आपसे प्रभावित होंगे। आपकी बुद्धि अत्यंत ही तीक्ष्ण रहेगी अतः विभिन्न शास्त्रीय विषयों का ज्ञानार्जन करके आप एक विद्वान के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा एवं आदर बढ़ाने में समर्थ होंगे। एक विचारक के रूप में भी आप सम्मानीय होंगे। यद्यपि ब्रह्मादि के विषय में चिन्तनशील रहेंगे परन्तु भौतिकता के प्रति भी आकर्षण रहेगा।

लग्न में बृहस्पति के प्रभाव से आपका स्वारथ्य उत्तम रहेगा तथा मानसिक रूप से भी शांति तथा सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे। आपका स्वरूप दर्शनीय एवं व्यक्तित्व आकर्षक होगा फलतः अन्य लोग आपसे प्रभावित होंगे। लेखन के प्रति आपकी ऊची होगी तथा इस क्षेत्र में आप आदर एवं प्रतिष्ठा भी अर्जित कर सकते हैं। अभिमान के भाव की आप में अल्पता होगी तथा सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। आप सरकार या समाज में सम्मान प्राप्त करने में सफल होंगे। आप में दयालुता का भाव भी विद्यमान होगा तथा अवसरानुकूल अन्य जनों की सेवा तथा सहायता करने के लिए तत्पर होंगे। इसके अतिरिक्त साहित्य एवं कला के प्रति भी आपकी अभिलिंग्चि रहेगी।

पिता के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा का भाव होगा तथा उनकी सेवा करने में तत्पर होंगे। बाल्यावस्था में आपको संघर्ष करना पड़ेगा परन्तु युवावस्था के बाद आप सुखैश्वर्य एवं धन वैभव तथा भौतिक सुख संसाधनों को अर्जित करके सुख एवं शांति पूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे। पुत्र संतति से आप युक्त रहेंगे तथा इनसे आपको इच्छित सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा।

धर्म के प्रति आपके मन में श्रद्धा होगी तथा समय समय पर धार्मिक कार्य कलापों तथा अनुष्ठानों को सम्पन्न करेंगे। इससे आपको आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। साथ ही बन्धु एवं मित्र वर्ग में भी आप प्रिय एवं आदरणीय होंगे तथा इनसे आपको इच्छित लाभ एवं सहयोग मिलता रहेगा। इस प्रकार आप धनैश्वर्य से युक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे।

## Girl

आपके जन्म समय में लग्न में कर्क राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी चन्द्रमा है। सामान्यतया कर्क लग्न में उत्पन्न जातक शांत स्वभाव एवं दृढ़तापूर्वक अपने कार्यों को सम्पन्न करने वाले होते हैं। इनकी प्रवृत्ति भावुक होती है तथा प्रेम एवं स्नेह का निश्छल भाव इनके अंदर विद्यमान रहता है। जीवन में समस्त भौतिक सुख संसाधनों को अर्जित करने में ये समर्थ रहते हैं तथा सुख पूर्वक इनका उपभोग करते हैं। धर्म के प्रति ये श्रद्धालु होते हैं तथा समाज एवं देश सेवा के कार्य में इनकी इच्छा रहती है। दूसरे लोगों की आंतरिक भावनाओं को समझने में ये चतुर होते हैं। साथ ही राजनीति या सरकारी क्षेत्र में उच्चाधिकार प्राप्त सम्मानित पद को अर्जित करने में सफलता प्राप्त करते हैं जिससे समाज में इनको इच्छित मान प्रतिष्ठा एवं यश की प्राप्ति होती है।

अतः इसके प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा मानसिक सन्तुष्टि भी बनी रहेगी। आपका स्वरूप सुदंर एवं दर्शनीय होगा तथा अन्य जनों को आकर्षित तथा प्रभावित करने में समर्थ होंगी। आप एक विदुषी तथा बुद्धिमान महिला होंगी तथा बुद्धिमता पूर्वक अपने शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रायः अच्छी रहेगी एवं प्रचुर मात्रा में धन एवं लाभ अर्जित होता रहेगा।

लग्न में लग्नेश चन्द्रमा की राशि के प्रभाव से आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ तथा प्रसन्न रहेंगी एवं अपने सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को उत्साह तथा परिश्रम से करेंगी। इनमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी जिससे आपके सर्वत्र उन्नति मार्ग प्रशस्त रहेंगे। धन एवं वैभव से भी आप युक्त रहेंगी तथा जीवन में आनंदपूर्वक इनका उपभोग करेंगी। आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी तथा उत्कृष्ट कार्यकलापों को सम्पन्न करने में तत्पर होंगी।

आप एक कर्तव्यपरायण महिला होंगी तथा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। इससे आपके कार्य क्षेत्र के प्रभाव में सतत वृद्धि होगी। आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगी। साथ ही मित्रों में भी आप आदरणीय एवं सम्माननीय समझीं जाएंगी तथा मित्रता का क्षेत्र भी विस्तृत होगा। संतति से आप युक्त रहेंगी तथा जीवन में इनसे आपको पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। आप में कृतज्ञता की भावना भी विद्यमान रहेगी फलतः अन्य जनों के उपकार को आप स्वीकार करेंगी तथा उनका हार्दिक आभार प्रकट करेंगी।

धर्म के प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होगी तथा नियमित रूप से धार्मिक कार्यकलापों एवं अनुष्ठानों को अवसरानुकूल सम्पन्न करती रहेंगी। जल क्रीड़ा के प्रति भी आपकी रुचि रहेंगी तथा इससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। ज्यौतिष के प्रति भी आपकी श्रद्धा होगी तथा इसके ज्ञानार्जन में भी रुचिशील होंगी।

इस प्रकार आप शांत, दृढ़-प्रतिज्ञ, कर्तव्यपरायण, परिश्रमी एवं साहसी महिला होंगी तथा जीवन में सर्व सुखों को अर्जित करने में समर्थ रहेंगी।

# धन, परिवार, आंख एवं वाणी

## Boy

आपके जन्म समय में द्वितीय भाव में मेष राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है। अतः इसके प्रभाव से आप भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े रहेंगे तथा उनके प्रति पूर्ण चिन्तित रहेंगे। साथ ही उनकी खुशहाली एवं प्रसन्नता के लिए यत्नपूर्वक संसाधनों को अर्जित करेंगे परन्तु यदाकदा अपनी कोई व्यक्तिगत झच्छा को आप पारिवारिक सुख से श्रेष्ठ समझेंगे तथा पहले अपनी ही झच्छा को पूर्ण करेंगे। घर की सुन्दरता एवं आकर्षण के प्रति आप हमेशा सजग रहेंगे तथा यत्न पूर्वक घर का आकर्षक रूप बनाए रखने के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे तथा आपके मित्र भी गुणवान तथा शिक्षित होंगे।

विभिन्न प्रकार के स्वादों का आस्वादन करने के आप इच्छुक रहेंगे। साथ ही मिष्ठान एवं नमकीन के प्रति विशेष रुचि रहेगी। सामान्यतया आप सुन्दर एवं सुखादु एवं पौष्टिक भोजन ही करेंगे। धन के प्रति आपके मन में लालसा रहेगी तथा परिश्रम एवं यत्नपूर्वक धनार्जन करते रहेंगे। साथ ही कीमती आभूषणों या धातुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वाणी भी ओजास्विता के भाव से युक्त रहेगी लेकिन यदा कदा मधुरता की न्यूनता होगी। आप घर में समय समय पर धार्मिक कार्य कलाप या अन्य प्रकार के उत्सवों का आयोजन करते रहेंगे। साथ ही आप किसी उत्सव के आयोजन को हाथ से नहीं जाने देंगे तथा अवश्य उसमें भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त नीति के आप ज्ञाता होंगे तथा घर वाहन तथा पुत्रों से युक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

## Girl

आपके जन्म समय में द्वितीय भाव में सिंह राशि उदित हुई है जिसका स्वामी सूर्य है। अतः इसके प्रभाव से आप कम बोलना पसंद करेंगी तथा सामान्यतया शान्त रहना ही आपको अच्छा लगेगा। आप आवश्यकता एवं अवसरानुकूल ही सार्थक वार्तालाप करेंगी। जीवन में वैभव शाली पदार्थों की प्राप्ति तथा शुभ एवं मांगलिक कार्यों को सम्पन्न करने में सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपकी प्रवृत्ति शीघ्र कोधित होने की रहेगी परन्तु शीघ्र कोधित होकर शीघ्र शान्त भी हो जाएंगी। परिवार की शान्ति तथा खुशहाली के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहेंगी तथा यत्नपूर्वक पारिवारिक जनों को सुख सुविधाएं प्रदान करेंगी। आपको पैतृक सम्पति की भी प्राप्ति होगी तथा अन्य मूल्यवान धातु एवं द्रव्यों से भी युक्त रहेंगी।

जमीन जायदाद संबंधी लाभ भी आप समय समय पर प्राप्त करती रहेंगी। साथ ही गृह एवं वाहन आदि का स्वामित्व भी आपको प्राप्त होगा। आपकी वाणी स्पष्ट रहेंगी तथा अन्य जन आपकी मृदुवाणी से प्रभावित तथा आकर्षित रहेंगे। आपके ठेस तर्कों से सभी लोग आपसे सामान्यतया सहमत रहेंगे। परिवार की सुख शान्ति पर आप यथोचित व्यय करेंगी। साथ ही धर्म के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव रहेगा तथा धार्मिक कार्य कलापों का भी समय समय पर आयोजन करती रहेंगी। परिवार के अतिरिक्त अन्य जनों का पालन करने में भी समर्थ रहेंगी। इस प्रकार आप तथा भाग्यशाली, परोपकारी, धार्मिक प्रवृत्ति से युक्त तथा समाज में सम्मान जनक स्थान प्राप्त करने में समर्थ रहेंगी।

# शिक्षा, माता, वाहन एवं जायदाद

## Boy

आपके जन्म समय में चतुर्थभाव में मिथुन राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बुध है। अतः इसके प्रभाव से जीवन में आपको समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी तथा आधुनिक एवं भौतिक उपकरणों से भी युक्त रहेंगे तथा आनन्दपूर्वक इसका उपभोग करेंगे। आप एक वैभव तथा ऐश्वर्य शाली व्यक्ति होंगे तथा समाज में आपका उच्च स्तर बना रहेगा।

आप एक भाग्यशाली व्यक्ति होंगे तथा जीवन में चल एवं अचल सम्पत्ति के स्वामित्व को प्राप्त करेंगे। आपको किसी श्रेष्ठ एवं वृद्ध व्यक्ति की भी चल अथवा अचल सम्पत्ति मिलेगी। इससे आपके ऐश्वर्य एवं वैभव में वृद्धि होगी तथा सम्पन्नता बनी रहेगी। आप अपनी योग्यता एवं बुद्धिमता से भी धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने में समर्थ होंगे। इसके अतिरिक्त आपको अचल की अपेक्षा चल सम्पत्ति से विशेष लाभ होगा। अतः वांछित लाभ अर्जित करने के लिए आप चल सम्पत्ति पर निवेश कर सकते हैं।

जीवन में आपको उत्तम आवास की प्राप्ति होगी। आपका घर विशाल, सुन्दर एवं आकर्षक होगा तथा आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। यह भौतिक उपकरणों से भी सुसज्जित रहेगा। घर की सुन्दरता का आप विशेष ध्यान रखेंगे तथा अन्य जनों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। आपका घर किसी अच्छी कालोनी में होगा तथा पड़ोसियों से संबंधों में मधुरता रहेगी। इसके अतिरिक्त उत्तमवाहन से भी आप युक्त होंगे तथा सुखपूर्वक इसका उपभोग करेंगे।

आपकी माताजी सुन्दर, सुशील, बुद्धिमान एवं शिक्षित महिला होंगी तथा उनका स्वभाव भी सरल होगा। कर्तव्यपरायणता का भाव भी उनमें विद्यमान होगा तथा अपनी व्यवहार कुशलता से वे परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि करेंगी। सभी पारिवारिक जन उनको यथोचित सम्मान प्रदान करेंगे। आपके प्रति उनके मन में विशेष स्नेह का भाव होगा तथा अवसरानुकूल आपको वांछित आर्थिक एवं नैतिक सहयोग प्रदान करेंगी। आपकी चहुंमुखी उन्नति में उनका प्रमुख योगदान होगा। आप भी उनके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रखेंगे तथा अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। इस प्रकार आप एक दूसरे के पूर्ण शुभचिन्तक होंगे तथा आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी।

विद्याध्ययन में प्रारंभ से ही आपकी पूर्ण रुचि होगी तथा स्वपरिश्रम एवं योग्यता से छोटी कक्षाओं से ही अच्छे अंक प्राप्त करके सफलताएं अर्जित करेंगे। आप स्नातक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। इससे आपके उज्ज्वल भविष्य के मार्ग प्रशस्त होंगे तथा मन में आत्मविश्वास के भाव में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त आप किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उच्चशिक्षा या डिग्री भी अर्जित कर सकते हैं।

## Girl

आपके जन्म समय में चतुर्थ भाव में तुलाराशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शुक्र है। अतः इसके प्रभाव से जीवन में सर्व सुखों से आप युक्त होंगी तथा प्रसन्नतापूर्वक इनका उपभोग

करेंगी। भौतिक सुख संसाधनों एवं उपकरणों को भी अर्जित करने में समर्थ होंगी। आप एक वैभवशाली महिला होंगी तथा समाज में अपना अनुकूल स्तर बनाए रहेंगी।

आप एक सौभाग्यशाली महिला होंगी तथा जीवन में चल एवं अचल सम्पत्ति के स्वामित्व को प्राप्त करेंगी। आपको माता के द्वारा विशिष्ट सम्पत्ति की प्राप्ति होगी तथा इससे आपके वैभव एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। विवाह के बाद पति के सहयोग एवं प्रभाव से भी आप वांछित मात्रा में चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित करने में समर्थ होंगी।

आपको जीवन में उत्तम एवं विस्तृत क्षेत्र में स्थित गृह भी प्राप्ति होगी तथा सुख पूर्वक इसमें निवास करेंगी। आपका घर सर्व प्रकारेण आधुनिक एवं भौतिक उपकरणों से सुसज्जित होगा तथा इसकी सुन्दरता एवं आकर्षण बनाए रखने में व्यक्तिगत रूप से तत्पर होंगी तथा अन्य पारिवारिक जनों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। आपका घर किसी अच्छी कालोनी में होगा तथा पड़ोसी भी शिक्षित एवं बुद्धिमान होंगे एवं आपके आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको उत्तमवाहन की भी प्राप्ति होगी जिसका आप आनंद पूर्वक उपभोग करने में समर्थ होंगी।

आपकी माता जी शिक्षित बुद्धिमान एवं तेजस्वी महिला होंगी तथा पारिवारिक जनों पर उनका पूर्ण नियंत्रण होगा एवं सभी लोग उनके प्रभाव को स्वीकार करेंगी। आपके प्रति उनके मन में विशिष्ट स्नेह का भाव रहेगा तथा अवसरानुकूल उनसे आपको वांछित नैतिक एवं आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। आप भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा वं सम्मान का भाव रखेंगी तथा उन्हें अपनी ओर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे।

विद्या अध्ययन के क्षेत्र में आप परिश्रमी होंगी तथा स्वपरिश्रम एवं बुद्धिमता से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सफल होंगी। प्रारंभिक कक्षाओं से ही आप अच्छे अंक अर्जित करेंगी तथा स्नातक परीक्षा काफी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगी। इससे आपके आत्मविश्वास के भाव में वृद्धि होगी तथा भविष्य को उज्ज्वल बनाने में समर्थ होंगी। आप व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा में वांछित सफलता अर्जित करने में समर्थ हो सकती है क्योंकि आपमें परिश्रम तथा बुद्धिमता दोनों भाव विद्य मान है। इसके अतिरिक्त मित्र संबंधी एवं अन्य लोग भी आपकी सफलता से प्रसन्न तथा प्रभावित रहेंगी।

# प्रणय सम्बन्ध, सन्तान एवं बुद्धि

## Boy

आपके जन्म समय में पंचमभाव में कर्क राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी चब्द्रमा है अतः इसके शुभ प्रभाव से आप तीव्र एवं निर्मल बुद्धि के स्वामी होंगे तथा आपके कार्य कलापों पर स्पष्ट रूप से बुद्धिमता की छाप विद्यमान होगी जिससे अन्य सभी लोग आपसे प्रसन्न तथा प्रभावित होंगे। आप में शीघ्र एवं सटीक निर्णय लेने की शक्ति भी विद्यमान होगी जिससे आप समय समय पर लाभान्वित होते रहेंगे। आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी अपनी तीव्र बुद्धि से शीघ्र ही करने में समर्थ होंगे। वैदिक साहित्य दर्शन एवं धर्मशास्त्र में आपकी पूर्ण रुचि होगी तथा इनका अध्ययन करके ज्ञानार्जन में तत्पर होंगे। इसके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान राजनीति, गणित एवं ज्योतिष शास्त्र के भी आप ज्ञाता होंगे जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

पंचम भाव में कर्क राशि के प्रभाव से प्रेम-प्रसंगों में आपकी रुचि होगी परन्तु आपका प्रेम उच्चादर्शों से युक्त होगा तथा उसमें मर्यादा, नैतिकता एवं यर्थार्थवादी भाव विद्यमान होगा। इसमें भावनात्मक आकर्षण की भी प्रबलता होगी। अतः आपके प्रेम-प्रसंग की परिणिति विवाह के रूप में भी हो सकती है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा तथा प्रसन्नता पूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे।

जीवन में आपको यथोचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा पुत्रों की संख्या अधिक होगी। आपकी संतति बुद्धिमान, गुणवान्, प्रतिभाशाली एवं परिश्रमी होगी तथा अपने इन्हीं गुणों से जीवन में वांछित उन्नति एवं सफलता अर्जित करके सम्मान जनक स्तर प्राप्त करने में समर्थ होंगे। माता-पिता के प्रति उनके मन में पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान का भाव होगा तथा उनकी आज्ञा का पालन करना वे अपना परम कर्तव्य समझेंगे। वे माता-पिता की सलाह एवं सहयोग से ही शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करेंगे। इससे परस्पर सदभाव एवं विश्वास की भावना बनी रहेगी। माता की अपेक्षा पिता के प्रति बच्चों के मन में विशिष्ट लगाव होगा तथा उनके माध्यम से ही वे अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में तन-मन-धन से माता-पिता की सेवा करेंगे तथा उन्हें अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे इससे आपको बच्चों पर गर्व की अनुभूति होगी।

विद्याध्ययन के क्षेत्र में आपकी संतति बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली होगी तथा प्रारंभ से ही शिक्षा के क्षेत्र में वे विशिष्ट उपलब्धियों को अर्जित करेंगे। आप भी उनकी शिक्षा-दिक्षा का उच्च स्तर पर प्रबन्ध करेंगे तथा आधुनिक परिवेश में शिक्षा प्रदान करेंगे। फलतः बच्चे योग्य बनकर आपकी महत्वकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। इसके अतिरिक्त वे सुन्दर, स्वस्थ एवं आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे तथा अपनी व्यवहार कुशलता एवं कार्य-कलापों से अन्य सामाजिक जनों को प्रभावित करके उनसे रुप्रेषण तथा सम्मान अर्जित करेंगे। इस प्रकार आपको जीवन में संतति का वांछित सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा।

## Girl



आपके जन्मसमय में पंचमभाव में वृश्चिक राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है। अतः इसके प्रभाव से आप एक बुद्धिमान महिला होंगी तथा बुद्धिमता पूर्वक अपने सांसारिक महत्व के कार्य कलापों को सम्पन्न करेंगी परन्तु बुद्धि में तीक्ष्णता के भाव की व्यूनता होगी जिससे समस्याओं के समाधान में किंचित विलम्ब हो सकता है। अतः आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए तथा शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। नीचस्थ चन्द्र के प्रभाव से वैदिक एवं धर्मशास्त्रों में आपकी रुचि अल्प मात्रा में होगी परन्तु आधुनिक विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र में आपकी पूर्ण रुचि होगी एवं इस क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम से वांछित ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होंगी। आप कोई शोध कार्य भी आप सम्पन्न कर सकती हैं। इससे आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा सभी लोग एक विदुषी के रूप में आपके प्रभुत्व को स्वीकार करेंगे।

पंचमभाव में वृश्चिक राशि के प्रभाव से प्रेम प्रसंगों में आप की काफी रुचि होगी तथा मनोरंजन एवं दिल बहलाने का आप इसे साधन समझेंगे। इसमें मर्यादा एवं आदर्श की भावना भी कम ही होगी जिससे आपको समय समय पर अनावश्यक समस्याओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त भावात्मक लगाव की अपेक्षा शारीरिक लगाव अधिक होगा। अतः ऐसी स्थितियों की आपको यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए।

जीवन में आपको यथोचित समय पर सन्तति की प्राप्ति होगी तथा कन्या सन्तति अधिक होगी। आपकी सन्तति बुद्धिमान, योग्य एवं तेजस्वी प्रवृत्ति के होंगे तथा अपने इन गुणों से जीवन में वांछित उन्नति एवं सफलता अर्जित करेंगे वे माता-पिता की आज्ञा का पालन करेंगे परंतु रदा कदा अपनी मर्जी के कार्य भी करेंगे। वे शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में माता-पिता की सलाह लेंगे वे व्यावहारिक बुद्धि के होंगे अतः आपको उन्हें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देने चाहिए तथा उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चालिए। इससे आपके सम्बन्धों में अनुकूलता बनी रहेगी।

अध्ययन के क्षेत्र में आपकी सन्तति काफी परिश्रम एवं पराक्रम से ही सन्तोषजनक उन्नति करने में समर्थ होगे। यद्यपि आप उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करेंगी लेकिन वे इसका पूर्ण लाभ उठाने में समर्थ होंगी परन्तु वे व्यावहारिक प्रवृत्ति के होंगे तथा अपनी चतुराई से आजीविका अर्जन में समर्थ रहेंगे तथा आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके अतिरिक्त तेजस्वी प्रवृत्ति होने के कारण यदा-कदा अन्य सामाजिक जबों से उनका विवाद भी हो सकता है लेकिन सामान्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा।

# परिवार, विवाह एवं साझेदार

## Boy

आपके जन्म समय में सप्तम भाव में कन्या राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बुध है तथा केतु भी सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। सामान्यतया कन्या राशि की सप्तम भाव में स्थिति से जातक का सहयोगी प्रिय वक्ता स्वच्छता प्रिय सौभाग्यवान् एवं विविध कार्यों में चतुर होता है केतु के प्रभाव से उसमें उग्रता तेजस्विता साहस एवं पराक्रम का भाव रहता है लेकिन कर्तव्यों के प्रति उसमें उपेक्षा की भावना रहती है।

अतः इसके प्रभाव से आपकी पत्नी तेजस्वी स्वभाव की महिला होंगी। सांसारिक कार्यों को वह परिश्रम एवं पराक्रम से सम्पन्न करेंगी तथा उनके साहसिक कार्यों से अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। स्वच्छता के प्रति वे विशेष ध्यान देंगी तथा उज्ज्वल वस्त्रों को धारण करेंगी। अपनी बोलचाल में यत्नपूर्वक मधुर शब्दों का उपयोग करेंगी। लेकिन केतु के प्रभाव से वह अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगी तथा परिवार तथा समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगी जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी।

आपकी पत्नी लालिमा युक्त गौरवर्ण की सुंदर महिला होंगी तथा उनका कद भी उन्नत होगा। शारीरिक संरचना उनकी पतली होगी परन्तु अन्य अंगों में पुष्टता तथा सुडौलता विद्यमान होगी जिससे उनके सौन्दर्य में वृद्धि होगी एवं व्यक्तित्व भी आकर्षक लगेगा। इसके अतिरिक्त संगीत एवं कला आदि में भी रुचि होगी तथा पाश्चात्य साहित्य का भी अनुकरण करेंगी।

सप्तम भाव में केतु के प्रभाव से आपके विवाह में विलम्ब होगा तथा विवाह पूर्व वार्ताओं में भी गतिरोध उत्पन्न होंगे। आपका विवाह विज्ञापन के माध्यम से होगा तथा प्रेम विवाह की भी संभावना रहेगी। विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य सुखी रहेगा तथा आपस में प्रेम एवं आकर्षण बना रहेगा। साथ ही सांसारिक महत्व के कार्यों को आपसी सहयोग एवं सहमति से सम्पन्न करेंगे। लेकिन पत्नी की तेजस्वी प्रवृत्ति से यदा कदा अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होंगी जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा। अतः ऐसे समय पर संयम से कार्य लेना चाहिए।

आपका विवाह साधारण परिवार में होगा एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वे सामान्य रहेंगे। विवाह के बाद सास ससुर से आपके अच्छे संबंध कम ही होंगे तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं स्नेह की भाव की उपेक्षा रहेगी। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण कार्यों एवं अवसरों पर एक दूसरे से सलाह सहमति या आवगमन भी कम ही होगा।

सास ससुर के प्रति आपकी पत्नी का विशेष सेवा भाव नहीं होगा तथा उनकी वह यथोचित सेवा नहीं करेंगी। देवर एवं ननद भी उनसे सन्तुष्ट नहीं रहेंगे तथा उन्हें यथोचित सम्मान तथा सहयोग कम ही प्रदान करेंगे।

व्यापार या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में साझेदारी के लिए स्थिति प्रतिकूल रहेगी। अतः साझेदारी के कार्यों की जीवन में यत्नपूर्वक उपेक्षा ही करनी चाहिए।

## Girl

आपके जन्म समय में सप्तम भाव में मकर राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शनि है सामान्यतया मकर राशि की सप्तम भाव में स्थिति के प्रभाव से जातक का सहयोगी चंचल वात प्रकृति एवं धनवान होता है। साथ ही वह सुशील सहिष्णु एवं बुद्धिमान होता है तथा अपने कार्य कलापों से अन्य जनों को प्रभावित करने में समर्थ रहता है।

अतः इसके प्रभाव से आपके पति चंचल तथा सुशील स्वभाव के व्यक्ति होंगे तथा अपने समस्त कार्यों को शांत मन से सम्पन्न करेंगे वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तथा अपने उत्कृष्ट कार्य कलापों से अन्य जनों को प्रभावित करेंगे। कला एवं संगीत के प्रति भी उनकी रुचि होगी। साथ ही उनमें कर्तव्य परायणता का भाव रहेगा एवं समाज तथा परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे जिससे आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

आपके पति गौर वर्ण की आकर्षक एवं सुंदर व्यक्ति होंगे तथा उनका कद भी सामान्य रहेगा। उनकी शारीरिक संरचना भी उत्तम रहेगी तथा पुष्टता एवं सुडौलता से उनके सौन्दर्य की अभिवृद्धि होगी। जलीय राशि मकर के प्रभाव से उनमें आयु के साथ साथ स्थूलता भी आ सकती है। साथ ही कला एवं सुंदर वस्तुओं के प्रति भी उनके मन में प्रबल आकर्षण होगा।

आपका विवाह संबन्धियों के सहयोग से सम्पन्न होगा तथा महिला संबंधियों का इसमें विशेष योगदान रहेगा। विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा तथा आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे तथा एक दूसरे के मनोभावों का पूर्ण आदर करेंगे। साथ ही सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को आपसी सहमति तथा सहयोग से पूर्ण करेंगे। इससे संबंधों में मधुरता रहेगी तथा परस्पर विश्वास का भाव भी बना रहेगा।

आपका विवाह सामान्य परिवार में होगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से उनकी स्थिति साधारण रहेगी। सास ससुर से आपके सामान्य संबंध अच्छे रहेंगे तथा वे भी आपको यथोचित स्नेह तथा नैतिक सहयोग प्रदान करेंगे।

सास ससुर के प्रति आपके पति की पूर्ण सेवा तथा श्रद्धा की भावना रहेगी तथा सुख दुख में उनका पूर्ण ध्यान रखेंगे एवं अपनी ओर से कोई कष्ट नहीं होने देंगे। साले एवं सालियों को भी वह अपने मृदु व्यवहार एवं वाणी से प्रभावित तथा प्रसन्न रखेंगे तथा वे भी उन्हें यथोचित सम्मान प्रदान करेंगे।

व्यापार में साझेदारी के लिए स्थिति अनुकूल रहेगी एवं माता या अन्य मातृपक्ष के साथ साझेदारी से वांछित लाभ एवं उन्नति होगी तथा आपस में विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।



# व्यवसाय, पिता एवं सामाजिक स्तर

## Boy

आपके जन्म समय में दशमभाव में धनु राशि उद्दित हो रही थी जिसका स्वामी बृहस्पति है धनु राशि अग्नितत्व राशि है। अतः इसके प्रभाव से आपका कार्य क्षेत्र बौद्धिक एवं मानसिक क्रिया प्रधान के साथ साथ श्रमसाध्य भी होगा तथा स्वपरिश्रम एवं पराक्रम से आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। साथ ही परिश्रमी स्वभाव होने के साथ आप किसी स्वतंत्र कार्य या व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

आपके लिए आजीविका संबंधी क्षेत्र लिपिकीय कार्य, लेखन, साहित्य, चित्रकारी, जिल्दसाजी, शिक्षक, ज्योतिषी, पुस्तक विक्रेता सम्पादक, संशोधक, अनुवादक, संदेश वाहक तथा टेलिफोन आपरेटर आदि कार्य शुभ एवं अनुकूल रहेंगे। इन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको उन्नति मार्ग सदैव प्रशस्त होंगे तथा अनावश्यक समस्याओं एवं व्यवधानों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः आपको अपनी चहुँमुखी उन्नति एवं उज्जवल भविष्य के लिए उपरोक्त विभागों में ही अपनी अजीविका का चयन करना चाहिए।

व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए एजेंसी, दलाली, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशन कार्य, अगरबत्ती, पुष्पमालाएं, कागज के खिलौने, आदि से इच्छित लाभ एवं धन अर्जित होगा। साथ ही चित्रकारी, कला आदि के स्वतंत्र व्यवसाय से भी आप लाभ एवं उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप व्यापार करने के इच्छुक हो तो उपरोक्त क्षेत्रों में ही आपको अपने कार्य का प्रारम्भ करना चाहिए जिससे बिना किसी बाधा के आप उन्नति कर सकेंगे।

जीवन में आपको मानसम्मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी तथा अपनी बुद्धिमता एवं बिद्धता से आप किसी सामाजिक पद को भी अर्जित करने में समर्थ होंगे। समाज में आप आदरणीय एवं प्रभावशाली व्यक्ति होंगे तथा सभी लोग आपको यथोचित सम्मान प्रदान करेंगे। साथ ही दूर दूर तक आपकी प्रसिद्धि होगी। आप किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक संस्था में सम्मानित पदाधिकारी या सदस्य भी हो सकते हैं जिससे आपके सम्मान एवं प्रभाव में वृद्धि होगी तथा जीवन में अर्जित उपलब्धियों से आप सन्तुष्ट होंगे।

आपके पिता बुद्धिमान विद्वान एवं मृदुस्वभाव के व्यक्ति होंगे तथा समाज में उनका पूर्ण प्रभाव होगा। आपके प्रति उनके मन में वात्सल्य का भाव होगा तथा उच्चशिक्षा का वे यथोचित प्रबंध करेंगे तथा आपको एक योग्य व्यक्ति के रूप में देखना चाहेंगे। आपको कार्यक्षेत्र की प्रारम्भिक उन्नति एवं सफलता में उनका प्रमुख योगदान होगा। साथ ही आप भी योग्य एवं परिश्रमी व्यक्ति होंगे तथा अपने पराक्रम से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तथा पिता के सम्मान में वृद्धि करेंगे। आपके आपसी संबंधों में भी मधुरता होगी तथा वैचारिक एवं सैद्धांतिक समानता बनी रहेगी इसके अतिरिक्त आप में आज्ञाकारिकता का भाव भी होगा तथा शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को आपसी सलाह एवं सहयोग से सम्पन्न करेंगे।

## Girl



आपके जन्म समय में दशमभाव में मेष राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है। साथ ही चन्द्रमा भी दशमभाव में ही स्थित है। मेष राशि अग्नितत्व एवं चन्द्रमा जलतत्व युक्त ग्रह है। अतः इनके प्रभाव से आपका कार्यक्षेत्र बौद्धिक एवं मानसिक क्रिया प्रधान होगा तथा श्रम की इसमें अल्पता होगी। साथ ही समयानुसार आप इसमें परिवर्तन भी करती रहेंगी जिससे आपको वांछित लाभ एवं उन्नति प्राप्त होगी।


आजीविका की दृष्टि से आपके लिए जलविभाग, वस्त्र उत्पादन फैक्टरी, स्टेनोग्राफर, कैमिकल्स, कार्यालय सहायक, सचिव, जलसेना, जहाजरानी विभाग अनुकूल रहेंगे। इन विभागों में कार्य करने से आपको वांछित उन्नति एवं सफलता मिलेगी तथा मानसिक रूप से भी आप सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगी।

व्यापारिक दृष्टि से आप जलोत्पन्न पदार्थों यथा मोती, शंख, प्रवाल मछली आदि का व्यापार, मिट्टी के खिलौने, बालू, ईट आदि का कार्य, द्रव पदार्थ यथा दूध, दही, धी, सफेद एवं मूल्यवान वस्त्र तथा समुद्री आयात निर्यात से वांछित धन एवं लाभ अर्जित करने में समर्थ होंगी। यदि आप व्यापार की इच्छुक हैं तो आपको उपरोक्त क्षेत्रों में ही व्यापार प्रारंभ करना चाहिए जिससे आपको अधिक मात्रा में धन एवं लाभ की प्राप्ति होगी तथा अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों से सुरक्षित रहेंगी। साथ ही इस क्षेत्र में विशिष्ट उन्नति एवं सफलता अर्जित करने में समर्थ होंगी।


दशमभाव में मेषराशिस्थ चन्द्रमा के प्रभाव से जीवन में आपको वांछित मान सम्मान की प्राप्ति होगी तथा किसी उच्च पद एवं अधिकार को अर्जित करने में सफलता मिलेगी। साथ ही आप किसी सामाजिक धार्मिक या शैक्षणिक संस्था में कोई पदाधिकारी भी हो सकती है इस सबसे आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा यश भी दूर दूर तक व्याप्त होगा। फलतः लोग आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। इसके अतिरिक्त सौभाग्य से भी आप जीवन में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने में समर्थ होंगी।

आपके पिता विद्वान बुद्धिमान, एवं विनम्र स्वभाव के व्यक्ति होंगे तथा उनके आकर्षक व्यक्तित्व से सभी लोग प्रभावित रहेंगे। साथ ही वे भी समाज के हित के कार्य कलापों में तत्पर होंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह एवं अपनत्व का भाव होगा एवं शिक्षा के प्रति वे पूर्ण सतर्क रहेंगे तथा उच्चस्तर पर इसका समुचित प्रबंध करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में पिता का सहयोग मुख्य होगा तथा उन्हीं के प्रभाव से आपको प्रसिद्धि तथा सफलता मिलेगी। आपका भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान का भाव होगा तथा उनकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर होंगी। साथ ही कोई भी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं की सलाह से सम्पन्न करेंगी इससे आपके परस्पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

### Boy एस्ट्रोग्राफ - 2019




### Girl एस्ट्रोग्राफ - 2019




### Boy एस्ट्रोग्राफ - 2020



### Girl एस्ट्रोग्राफ - 2020



### Boy एस्ट्रोग्राफ - 2021



### Girl एस्ट्रोग्राफ - 2021




### Boy एस्ट्रोग्राफ - 2022



### Girl एस्ट्रोग्राफ - 2022



### Boy एस्ट्रोग्राफ - 2023



### Girl एस्ट्रोग्राफ - 2023



### Boy एस्ट्रोग्राफ - 2024



### Girl एस्ट्रोग्राफ - 2024

